

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2018—चैत्र 7, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018

क्र. डी-15-24-18-चौदह-3.—एतद्वारा, मध्यप्रदेश में रबी मौसम वर्ष 2017-18 में कृषकों को चना, मसूर एवं सरसों फसल उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) अन्तर्गत खरीदी किये जाने का निर्णय लिया गया है.

प्रदेश के समस्त जिलों में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 मौसम रबी के लिये संलग्न सूची अनुसार फसल चना, मसूर एवं सरसों का वार्षिक कैलेंडर परिभाषित घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

मध्यप्रदेश में रबी वर्ष 2017-18 के लिये प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत निम्नांकित फसलों की बुवाई, कटाई एवं खरीदी के लिये वार्षिक कैलेंडर की सूची

क्रमांक	फसल का नाम	बोआई का समय	कटाई का समय	सर्वाधिक मण्डी में आवक समय	प्रस्तावित खरीदी समय (पी.एस.एस.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चना	अक्टूबर मध्य से दिसम्बर तक.	फरवरी से मार्च तक	05 अप्रैल से 30 जून तक.	10 अप्रैल से 30 जून तक.
2	मसूर	सितम्बर मध्य से नम्बर तक.	फरवरी से मार्च तक	05 अप्रैल से 30 जून तक.	10 अप्रैल से 30 जून तक.
3	सरसों	सितम्बर मध्य से नम्बर तक.	जनवरी से मार्च तक	05 अप्रैल से 30 जून तक.	10 अप्रैल से 30 जून तक.